

## परसपेक्टवि: भारत: लोकतंत्र की जननी

### प्रलिमिंस के लिये:

भारतीय लोकतंत्र, G20 शिखर सम्मेलन, P20 शिखर सम्मेलन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, SDG

### मेन्स के लिये:

भारतीय लोकतंत्र की वशिष्ठ के लोकतंत्र से तुलना, भारत में सदियों से लोकतंत्र की नरितरता

## प्रसंग क्या है?

हाल ही में पार्लियामेंट 20 (P20) शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह G20 देशों के संसदीय वक्ताओं के नेतृत्व वाला एक सहभागिता समूह है। इसका उद्देश्य "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिये संसद" विषय के तहत वैश्विक शासन में संसदीय आयाम लाना है।

- इस कार्यक्रम में भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए "लोकतंत्र की जननी" नामक एक प्रदर्शनी शामिल थी। भारत की लोकतांत्रिक वरिष्ठत समानता, समरसता, स्वतंत्रता, स्वीकार्यता और समावेशिता के महत्त्व पर जोर देती है, जो प्राचीन काल से वर्तमान तक भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं।

## भारत लोकतंत्र की जननी कैसे है?

- प्राचीन अवधारणा
  - भारत में लोकतंत्र का एक लंबा और गहन इतिहास रहा है। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि लोकतांत्रिक सिद्धांत भारतीय उपमहाद्वीप के लिये नए नहीं हैं।
    - शासक और शासित के बीच का संबंध पति और संतान के समान माना गया है।
  - भारतीय लोकतंत्र में धर्म (कर्तव्य) की अवधारणा महत्त्वपूर्ण है, जिसमें राजा (राज धर्म) और प्रजा (प्रजा धर्म) दोनों के दायित्व शामिल हैं।
- बुनियादी मूल्य
  - भारतीय लोकतंत्र के मूल मूल्य जैसे- समरसता, स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, समानता और समावेशिता नागरिकों के गरमिपूर्ण जीवन को रेखांकित करते हैं;
  - समावेशी नरिणय-प्रक्रिया के साथ लोकतांत्रिक पारिवारिक संरचनाओं का पारिवारिक महत्त्व देखा जाता है; सभाओं में महिलाओं की भागीदारी प्रारंभिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में समावेशिता को दर्शाती है।
  - भारत की लोकतांत्रिक नींव, जो इतिहास और सामाजिक मूल्यों में निहित है, धर्म द्वारा नरिदेशित स्थायी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर जोर देती है, यह शासकों तथा शासितों दोनों की भूमिकाओं को आकार देती है;
  - सहभागी लोकतंत्र की ऐतिहासिक परंपरा शासकों के चयन और अनुमोदन में जनता की भागीदारी को रेखांकित करती है, शासक की संभावना तथा सार्वजनिक सहमति के महत्त्व को उजागर करती है, व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने वाले के रूप में एक देखभाल करने वाले पति को प्रतिबिंबित करती है।
- लोकतंत्र का दार्शनिक आधार
  - लोकतांत्रिक-आध्यात्मिक-सामाजिक लोकाचार: प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथ, ऋग्वेद में कहा गया है: एकम् सद वपिा बहुधा वदन्ति- "सर्वोच्च वास्तविकता एक है, ऋषिउसे विभिन्न नामों से बुलाते हैं।"
  - "समानता लोकतंत्र की आत्मा है। भारत के दार्शनिकों, संतों और कवियों ने इसे पहचाना तथा सदियों से इसके महत्त्व का प्रचार किया।

## प्राचीन काल से लोकतांत्रिक संस्थाएँ किस प्रकार विकसित हुई हैं?

# DEMOCRATIC ETHOS IN BHARAT OVER THOUSANDS OF YEARS



//

- वैदिक युग में सार्वजनिक भागीदारी (6000 ईसा पूर्व - 1100 ईसा पूर्व)
  - चार वेद (ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद) राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक सिद्धांतों सहित एक व्यापक सभ्यतागत मूल्य प्रणाली को समाहित करते हैं।
  - वशिव की सबसे पुरानी रचना ऋग्वेद और अथर्ववेद में सभा, समिति तथा संसद जैसे प्रतिनिधिक निकायों का उल्लेख है, ये शब्द आज भी उपयोग में हैं।
- महाकाव्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था
  - रामायण व्यक्तियों के कल्याण के लिये शासन पर जोर देती है, जैसा कशिराम के सर्वसम्मति से अयोध्या के राजा के रूप में चयन में देखा गया था।
  - महाभारत में धर्म, आचार, नैतिकता और शासन पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर को भीष्म की सलाह, भगवद् गीता में कर्तव्यों पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।
- महाजनपद और गणतंत्र (7वीं तथा 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व)
  - व्यक्तियों का सामूहिक शासन, प्राचीन भारतीय प्रणालियों में एक प्रमुख विशेषता, महाजनपद शासन मॉडल में प्रकट हुआ: एक परिषद के साथ 15 राजत्व और 10 गणराज्य जहाँ प्रमुख चुना जाता था।
  - अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथ 'लोकतांत्रिक' संस्थाओं- गण, पूग, नगिम, जनपद पर प्रकाश डालते हैं।

## ■ जैन धर्म

- 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चला आ रहा जैन धर्म, अनेकांतवाद के माध्यम से बहुलवाद को बढ़ावा देता है, यह स्वीकार करते हुए कसित्य के कई पहलू होते हैं। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप सह-असत्त्व और सहषिणुता को बढ़ावा देता है।
- मूल सिद्धांत के रूप में **अहिसा के साथ** जैन धर्म शांतपूरण सह-असत्त्व का समर्थन करता है, जिसका आज भी भारत में पालन किया जाता है।

## ■ बौद्ध धर्म (500 ईसा पूर्व से)

- 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित **बौद्ध संघ**, प्रारंभिक **लोकतांत्रिक प्रथाओं** का उदाहरण था। इस भक्ति समुदाय ने बौद्ध सिद्धांतों और **लोकतांत्रिक परंपराओं** को बरकरार रखा, नेताओं के लिये खुली चर्चा तथा चुनाव को बढ़ावा दिया। बौद्ध सिद्धांत भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को आकार देते रहे हैं।

## ■ जन नेता

- प्रारंभिक भारत ने अराजकता की स्थिति में एक **महासम्मत्त** (महान निर्वाचित) का चुनाव करते हुए **सहभागी शासन** को अपनाया। एक बड़े हॉल में व्यक्तियों द्वारा चुना गया राजा, गणराज्य या व्यक्तियों के राज्य में उनकी सुरक्षा हेतु **'वासेट्ट'** (**प्रमुख**) के रूप में शासन करता था।
- बौद्ध धर्म के लोकतांत्रिक सिद्धांतों ने **शासकों को प्रभावित किया**, जिससे राज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाया सुनिश्चित हुआ। शिलालेखों में समृद्ध और गरिबों की रोकथाम के लिये नियमिता चुनाव का आग्रह किया गया।

## ■ कौटिल्य और अर्थशास्त्र (350 - 275 ईसा पूर्व)

- लोकतंत्र नागरिकों को प्राथमिकता देता है, जैसा कि **चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौटिल्य** द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के शासन ग्रंथ अर्थशास्त्र में जोर दिया गया है।
- यह दावा करता है कि शासक की खुशी और कल्याण व्यक्तियों की भलाई पर निर्भर करता है, जो भारत के सेवा करने के स्थायी लोकतांत्रिक सिद्धांत का प्रतीक है, न कि शासन करने का।

## ■ मेगस्थनीज़ और डायोडोरस सिकिलस के रिकॉर्ड (300 ईसा पूर्व)

- प्राचीन यूनानियों ने विभिन्न राज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का उल्लेख किया। भारतीयों की एक सराहनीय प्रथा थी: किसी को भी गुलाम नहीं बनाना, समान स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। वैश्विक गुलामी 150 वर्ष पहले समाप्त हो गई, सच्चा लोकतंत्र इसे बाहर रखता है। लेकिन भारत ने कभी गुलामी नहीं अपनाई थी।

## ■ अशोक का शासन काल (265 - 238 ईसा पूर्व)

- एक राज्य लोकतंत्र का प्रतीक है जब कानून द्वारा संरक्षित समान अधिकार और सम्मान, व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करते हैं।
- सम्राट अशोक ने कलिंग की जीत के बाद ऐसे शासन की स्थापना की, जो प्रत्येक पाँच वर्ष में व्यवस्थित मंत्रसिंहासित चुनावों के माध्यम से शांति और कल्याण को बढ़ावा देता था। उनके आदर्श लोकतंत्र के प्रतीक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित हैं।

## ■ फाह्यान के अभिलेख (5वीं शताब्दी ई.पू.)

- लोकतंत्र अधिकारियों को लोगों की सेवा करने का अधिकार देता है, फाह्यान ने लोगों, **कानून के शासन और सार्वजनिक कल्याण के प्रति** भारतीय सम्मान का पालन किया।

## ■ खलीमपुर ताम्रपत्र (9वीं शताब्दी ई.)

- गोपाल को लोगों ने एक अयोग्य शासक को प्रतिस्थापित करने के लिये चुना था। खलीमपुर ताम्रपत्र अव्यवस्था के अंत और न्याय के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हैं।

## ■ श्रेणिसिंघा प्रणाली (876 ई.)

- भारत में लोकतांत्रिक प्रशासन में गलिंड और शहर के नेताओं सहित **जवाबदेह प्रशासनिक अधिकारियों का चुनाव करना** तथा उन्हें रखना शामिल है।

## ■ उथरिमेरुर शिलालेख (919 ई.)

- दक्षिण भारत के **उथरिमेरुर मंदिर** में शासक परांतक चोल प्रथम के शिलालेख एक हज़ार साल पहले के लोकतांत्रिक चुनावों और स्थानीय स्वशासन की पुष्टि करते हैं।

## ■ वजिय नगर साम्राज्य का शासन

- **सर्व-सम्मति** लोकतांत्रिक आधार है, जिसका उदाहरण दक्षिण भारत में वजियनगर है, जहाँ **कृष्णदेव राय** के सहभागी शासन, **मंडलम, नाडु और स्थल** में विभाजन, ग्रामीण स्तर पर स्वशासन पर जोर दिया गया था, जो लोगों के लाभ के लिये एक आदर्श राज्य था।

## ■ पदीशाह अकबर (1556 - 1605 ई.)

- पदीशाह अकबर (1556 - 1605 ई.) ने धार्मिक भेदभाव से निपटने के लिये **"सुलह-ए-कुल"** की शुरुआत करते हुए **समावेशी शासन** का अभ्यास किया।
- उन्होंने समधर्मी धर्म **"दीन-ए-इलाही"** और **'इबादत खाना'** के साथ सद्भाव को बढ़ावा दिया। नवरत्न परामर्शदाताओं ने अकबर के उन्नत लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रदर्शित करते हुए जन-समर्थक पहलों में सहायता की।

## ■ छत्रपति शिवाजी (1630-1680 ई.)

- मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी (1630-1680 ई.) ने **लोकतांत्रिक शासन** का समर्थन किया। उनके **आज्ञा पत्र** में अष्ट-प्रधान के लिये कर्तव्यों की रूपरेखा दी गई, समान अधिकार सुनिश्चित किये गए। शिवाजी की लोकतंत्र वरिष्ठ उनके उत्तराधिकारियों के माध्यम से कायम रही।

## ■ भारत का संविधान (1947 से आगे)

- डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व वाली विधि संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया भारत का संविधान एक **आधुनिक, लोकतांत्रिक गणराज्य** की स्थापना करता है।
- यह समानता और **सार्वभौमिक मताधिकार सुनिश्चित** करते हुए **वधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका** की शक्तियों तथा संबंधों को रेखांकित करता है।
- संविधान कई संशोधनों के साथ लोगों के साथ तालमेल बठाने के लिये विकसित हुआ है, जिसमें संघ, राज्यों और स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली का समावेशन शामिल है।

## ■ आधुनिक भारत में चुनाव (1952 से आगे)

- भारत, वैश्विक लोकतंत्र का एक स्तंभ, आज़ादी के बाद से 17 राष्ट्रीय चुनाव, 400 से अधिक राज्य चुनाव और दस लाख से अधिक स्थानीय स्व-सरकारी चुनावों का अनुभव कर चुका है।
- **नरिवाचन आयोग**, राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने वाला एक स्वतंत्र निकाय है, जो सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को सुनिश्चित करता है तथा शासन के सभी स्तरों पर भारत के गहरे लोकतांत्रिक लोकाचार को दर्शाता है।

## वे कौन से स्रोत हैं जो भारतीय लोकतंत्र को फरि से खोजने में मदद करते हैं?

- **समृद्ध साहित्यिक वरिसत:** भारत के महाकाव्य महाभारत और रामायण, ज्ञान के स्थायी स्रोतों के रूप में कार्य करते हुए भारतीय संस्कृति में लोकतंत्र और धर्म की अवधारणाओं को बहुत प्रभावित करते हैं।
- **लोकतांत्रिक मूल्य:** भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांत पूरे इतिहास में चुनौतीपूर्ण समय में भी कायम रहे हैं। पश्चिमी और पारंपरिक दोनों मूल्यों के प्रभाव ने आधुनिक भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में योगदान दिया है।
- **मूल्यों की नरिरतरता:** ऐतिहासिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपनी लोकतांत्रिक भावना को बरकरार रखा है और यह भावना संविधान एंशासन प्रथाओं सहित इसकी लोकतांत्रिक संरचनाओं में परलिकषति होती है।

## लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत क्या भूमिका नभिसकता है?

- **मूल्यों का पोषण:**
  - भारत अपनी विविध सांस्कृतिक वरिसत के माध्यम से मौलिक मूल्यों का पोषण करते हुए "लोकतंत्र की जननी" के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिसकता है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों से प्रभावित देश का समृद्ध इतिहास लोकतांत्रिक सिद्धांतों तथा स्थायी नैतिक मूल्यों के संवर्द्धन में योगदान देता है।
- **जन जागरूकता:**
  - भारत जन जागरूकता को बढ़ावा देकर "लोकतंत्र की जननी" के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिसकता है। एक समृद्ध लोकतांत्रिक वरिसत के साथ राष्ट्र अपने नागरिकों के बीच जुड़ाव, राजनीतिक भागीदारी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिये एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है।
- **आधुनिक शिक्षा:**
  - भारत, आधुनिक शिक्षा में लोकतंत्र की जननी के रूप में एक मज़बूत लोकतांत्रिक नींव के साथ पीढ़ियों को आकार देते हुए महत्त्वपूर्ण विचार, समावेशिता और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाले पाठ्यक्रम के माध्यम से लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देता है।
- **G20 जैसे मंचों पर वैश्विक नेतृत्व**
  - भारत की प्रतबिद्धता आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के G20 लक्ष्यों के अनुरूप है। कुछ वैश्विक अभिकरताओं के विपरीत भारत का लोकतांत्रिक लोकाचार खुला संवाद, मानवाधिकार और समावेशी नीतियों का समर्थन करता है।
  - भारत विकासशील देशों की आवाज़ को बुलंद करता है, नरिणय लेने में न्यायसंगत प्रतनिधित्व और विविध दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के वैश्विक महत्त्व को रेखांकित करता है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समझ के लिये चर्चाओं एवं नीतियों को आकार देता है।
- **भारत का नेतृत्व**
  - भारत की G20 की अध्यक्षता लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रत उसकी प्रतबिद्धता को दर्शाती है। देश का लक्ष्य उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करना और वैश्विक लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना है।
- **सामूहिक शक्ति**
  - भारत की प्रगत और दृष्टिकोण इसके लोगों की सामूहिक शक्ति पर आधारित है। चुनौतियों पर काबू पाने और राष्ट्रीय एवं वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सहयोग, सर्वसम्मति और एकता की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

## नषिकरष

नई दिल्ली में संसद 20 (Parliament-20) शखिर सम्मेलन ने विश्व के सामने भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक वरिसत और मूल्यों को प्रदर्शित किया। समावेशिता, समानता तथा सद्भाव पर ज़ोर भारतीय लोकतंत्र का केंद्र है।

G20 में भारत की भूमिका लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रत उसकी प्रतबिद्धता और वैश्विक चुनौतियों से निपटने व अपने लोगों की सामूहिक ताकत में उसके विश्वास को दर्शाती है। देश शिक्षा तथा जन जागरूकता पहल के माध्यम से भावी पीढ़ियों को इनशाश्वत लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिये काम कर रहा है।

## सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नयित करता है? (2021)

(a) एक प्रतबिद्ध न्यायपालिका

- (b) शक्तियों का केंद्रीकरण
- (c) नरिवाचति सरकार
- (d) शक्तियों का पृथक्करण

**??????:**

प्रश्न: भारत की प्राचीन सभ्यता मसिर, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएँ आज भंग हुए बनिा पररिक्षति की गई है। टपिपणी कीजयि। (2015)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/perspective-bharat-the-mother-of-democracy>

